



## **Indraprastha Medical Corporation Limited**

(Indraprastha Apollo Hospitals)

Regd. Office : Sarita Vihar, Delhi-Mathura Road, New Delhi – 110 076 (India)

Corporate Identity Number : L24232DL1988PLC030958

Phone: 91-11-26925858, 26925801, Fax: 91-11-26823629

E-mail: [imclshares@apollohospitals.com](mailto:imclshares@apollohospitals.com), Website : <https://www.apollohospitals.com/delhi/>



Ref: IMCL/CS/Newspaper/2025

1<sup>st</sup> September, 2025

**The Manager**  
**Listing Department**  
**BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy**  
**Towers Dalal Street, Mumbai,**  
**Maharashtra - 400001**  
**Scrip Code: 532150**

**The Manager**  
**Listing Department**  
**National Stock Exchange of India Limited**  
**Exchange Plaza, C-1, Block G,**  
**Bandra Kurla Complex, Bandra East,**  
**Mumbai, Maharashtra - 400051**  
**Symbol: INDRAMEDCO**

### **Sub.: Newspaper advertisement – 37<sup>th</sup> Annual General Meeting.**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III (Part A) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copies of the public notice of the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting, published in the “Financial Express”, all India editions, in English language and in “Jansatta”, Delhi edition, in Hindi language.

You are requested to take the above information on record.


Thanking You,

Yours sincerely,

For Indraprastha Medical Corporation Limited

Priya Ranjan  
AVP – Corporate Affairs & Legal  
(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl.: As above



**INDRAPRASTHA MEDICAL CORPORATION LIMITED**  
 Regd. Office: Sarita Vihar, Delhi-Mathura Road, New Delhi – 110 076 (India)  
 Corporate Identity Number: L24232DL1988PLC030958  
 Phone : 91-11-26925858, 26925801, Fax : 91-11-26823629  
 E-mail: imclshares@apollohospitals.com Website: https://www.apollohospitals.com/delhi


**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS- 37<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Shareholders of Indraprastha Medical Corporation Limited (the Company) may note that:-

- 37<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 24<sup>th</sup> September, 2025, at 11.30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circulars General Circular Nos. 20/2020, 10/2022, 9/2023 and 9/2024 dated 5<sup>th</sup> May, 2020, 28<sup>th</sup> December, 2022, 25<sup>th</sup> September, 2023, and 19<sup>th</sup> September 2024, respectively, read with Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circulars dated 12<sup>th</sup> May, 2020, and 3<sup>rd</sup> October, 2024 (the said Circulars) to transact the business, as set out in the notice of AGM which is being sent for convening the AGM.
- The Notice of AGM along with the Annual Report 2024-25, is being sent only by electronic mode to those members whose email address are registered with the Company/ Depositories in accordance with the aforesaid circulars. Members may note that the Notice of the AGM and Annual report 2024-25, will also be available on the company's website https://www.apollohospitals.com/delhi , and website of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only.
- A letter providing the weblink for accessing the Annual report for the year 2024-25 is being sent to those shareholders who have not registered their email address with the Company / Depository.
- For receiving all communication (including Annual Report) from the Company electronically:
  - Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their email address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s MUFG Intime India Pvt.Ltd. at [delhi@in.mpmis.mufg.com](mailto:delhi@in.mpmis.mufg.com) with details of Folio no., Name of Shareholders, Scanned copy of Share Certificate (front and back), PAN (Self attested copy of PAN card), Aadhar (Self attested copy of Aadhar card).
  - Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participant.
- The remote e-voting as well as e-voting at the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting portal to be provided by the Company. The details of the e-voting portal and process of e-voting will be specified in the Notice of the AGM. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their Email-Id, can access the details of e-voting portal and process as mentioned in the Notice of the AGM and vote on e-voting system after obtaining the credentials for the purpose of e-voting. The credentials will be provided to the members after verification of all the details.
- The Notice of the 37<sup>th</sup> AGM is being sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses.

**For Indraprastha Medical Corporation Limited**  
**Priya Ranjan**  
**AVP – Corporate Affairs & Legal**  
**(Company Secretary and Compliance Officer)**

**Date: 30.08.2025**  
**Place: New Delhi**



**DSJ Keep Learning Limited**  
 (Formerly Known as DSJ Communications Limited)  
 CIN: L80100MH1989PLC054329  
 Regd. Off.: 419-A, Arun Chambers, 4<sup>th</sup> Floor, Next to AC Market, Tardeo, Mumbai - 400034 India Tel:8976958625  
 E-mail: [compliance@dsjkeeplearning.com](mailto:compliance@dsjkeeplearning.com) Website: <https://dsjkeeplearning.com>

**Notice to Member-Information regarding 35<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held through Video Conference or Other Audio-Visual Means**

The Members are hereby informed that the forthcoming 35<sup>th</sup> (Thirty Fifth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of DSJ Keep Learning Limited ("the Company") will be held on **Tuesday, 30<sup>th</sup> September 2025 at 3.00 p.m. (IST)** through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of 35<sup>th</sup> AGM which will be e-mailed separately to the members in due course.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its General Circular No. 20/2020 dated 05<sup>th</sup> May, 2020, read with the relevant circulars on the subject, including General Circular No. 09/2024 dated 19<sup>th</sup> September, 2024 (collectively referred to as "MCA Circulars") and in line with the Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has permitted the holding of the Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (Act), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (SEBI Listing Regulations) and MCA Circulars, the 35<sup>th</sup> AGM of the Company is being held through VC / OAVM on Tuesday, 30<sup>th</sup> September 2025 at 3.00 p.m.

Notice and the Annual Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2025 will be sent electronically to those Members whose e-mail address(es) are registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar and Share Transfer Agent. The copy of the Notice along with the Annual Report also may be made available on the website of the Company viz., <https://dsjkeeplearning.com> and on the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). In addition to this, pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a letter containing link of the Company's website where Annual Report is uploaded shall be sent to those shareholders whose e-mail addresses are not registered.

**MANNER OF REGISTERING/UPDATING EMAIL ADDRESS FOR RECEIVING THE NOTICE OF AGM AND ANNUAL REPORT:**

In line with the Circulars issued by MCA and SEBI, members are advised to update their Email IDs in order to receive electronic copies of Annual Report/login credentials, in the manner mentioned below, since no physical copies of Annual report will be dispatched to any member.

<b>MEMBERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL MODE</b>	In case the shares are held in physical mode, members are requested to submit their service requests in the formats prescribed under SEBI Master Circular for Registrars to an Issue and Share Transfer Agent of the Company bearing no. SEBI/HO/MRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 to i.e. at MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited).
<b>MEMBERS HOLDING SHARES IN DEMATERIALIZED MODE</b>	Members who hold shares in dematerialised mode and have not yet updated their email addresses are requested to register/update their email addresses with the Depository Participant (s) ("DPs") by following the procedure prescribed by the DPs.

The Company and RTA shall co-ordinate with CDSL and provide login credentials for e-voting to the above-mentioned members, subject to the receipt of the required documents and information from the members.

Further upon receipt of e-mail request from the Members of the Company on the Company's investor id i.e., [compliance@dsjkeeplearning.com](mailto:compliance@dsjkeeplearning.com) for Notice of AGM and Annual Report. The Company shall arrange to provide the same to the Member.

**PARTICIPATION AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING):**

Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM. The instructions for joining/participating in the AGM and the instructions of e-voting (before and during the AGM) will be provided in the Notice of AGM and the members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.

The Company has entered into agreement with CDSL, authorized e-voting agency, for facilitating voting through electronic means ("remote e-voting") to enable the members to exercise their right to vote on the resolution proposed to be passed at the AGM as well as for the members who are present at the AGM through VC/OAVM facility and wish to cast their vote during the AGM, through e-voting system ("e-voting"), if the members have not already casted their vote.

The manner of 'remote e-voting and e-voting' during the AGM, for members holding shares in physical mode, dematerialized mode and for members who have not registered their e-mail addresses will be provided in detailed in the Notice of the AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact at toll free no. 1800 21 09911.

**By order of the Board of Directors**  
**For DSJ Keep Learning Limited**  
 (Formerly known as DSJ Communications Limited)  
 Sd/-  
**Jaiprakash Gangwani**  
 Company Secretary & Compliance Officer  
 (ACS 55760)

**Place: Mumbai**  
**Date: 30/08/2025**



**BONLON INDUSTRIES LIMITED**  
 Regd. Office:7A/39 (12- FF.), W.E.A. Channa Market, Karol Bagh, New Delhi - 110005  
 Ph. 011-47532792, Fax: 011-47532798, E-mail: [cs@bonlonindustries.com](mailto:cs@bonlonindustries.com)  
 CIN: L27108DL1998PLC097397

**Notice - 28<sup>th</sup> Annual General Meeting (Pre-dispatch)**

This is to inform that, the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of M/s Bonlon Industries Limited ("the Company") will be held on Monday, 29<sup>th</sup> September, 2025 at 02:00 P.M. through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with Circular No.20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular 09/2023 dated 25 September 2023 and General Circular 09/2024 dated 19 September 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/ CIR/2023/4 dated January 5, 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") along with any other applicable circulars to transact the businesses as set out in the Notice convening the 28<sup>th</sup> AGM, which will be sent in due course of time.

Members may note that the 28<sup>th</sup> AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the pursuance of above stated circulars and in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the 28<sup>th</sup> AGM and Annual Report for the financial year 2024-25, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant/ Registrar and Transfer Agent ("RTA"). Additionally, in accordance with the regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the company is also sending a letter to member whose email IDs are not registered with company RTA/DP providing the web link of the company's website for accessing the annual report for the FY 2024-25. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its members similar to earlier practices.

The e-copy of the notice of the 28<sup>th</sup> AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 of the Company will be available on the website of the Company at [www.bonlonindustries.com](http://www.bonlonindustries.com) and also be available on the website of the BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), in due course of time.

The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the 28<sup>th</sup> AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person.

In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant, please follow the process of registering the same as mentioned below:


<b>Physical Holding</b>	100% Shareholding of the Company is in De-mat Form, so this provision is not applicable to the Company.
<b>Demat Holding</b>	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP or get temporarily registered with RTA of the Company Bigshare Services Private Limited, by clicking the link <a href="http://www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx">www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx</a> . Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH/Declare by company.

Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with the notice of the 28<sup>th</sup> AGM. However, members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular.

**For and on behalf of**  
**Bonlon Industries Limited**  
 Sd/-  
**Arun Kumar Jain**  
 Managing Director  
 DIN: 00438324

**Place: New Delhi**  
**Date: 30.08.2025**



**TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED**  
 CIN : L29199HR1956PLC033107  
 Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003  
 Tel.No.: 0129-4960482, E-mail: [seema\\_narang@talbros.com](mailto:seema_narang@talbros.com) Website: [www.talbros.com](http://www.talbros.com)

**NOTICE OF 68<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 68<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at 12:30 P.M. (IST) on **Thursday, 25<sup>th</sup> September, 2025** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Businesses, as mentioned in the Notice for convening the 68<sup>th</sup> AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered office of the Company i.e. 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana-121003.

In terms of MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of 68<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 have been sent only through electronic mode on Saturday, 30<sup>th</sup> August, 2025, to members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) (DPs) Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Kfin Technologies Limited. Additionally, pursuant to Regulation 36(1)(b) of SEBI Listing Regulations, as amended, the Company is also sending a letter to the shareholders, whose e-mail IDs are not registered with the Company/RTA/DP, providing the weblink of Company's website from where the 68<sup>th</sup> AGM Notice and the Annual Report for FY 2024-25 can be accessed.

The Notice of 68<sup>th</sup> AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 are also available and can be downloaded from Company's website [www.talbros.com](http://www.talbros.com), websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and also from the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <https://www.evoting.nsdl.com>.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to all its members, to cast their vote on all the Resolutions set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting systems (e-voting), provided by the NSDL. The Company has appointed Ms. Kiran Sharma, a practicing Company Secretary (Membership No. 4942) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

**Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:**

- The remote e-voting facility shall commence at 9.00 A.M. (IST) on **Monday, 22<sup>nd</sup> September, 2025** and end at 5.00 p.m. (IST) on **Wednesday, 24<sup>th</sup> September, 2025**. The remote e-voting facility will be disabled thereafter.
- Any person who acquires shares and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of 68<sup>th</sup> AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 18<sup>th</sup> September, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or [seema\\_narang@talbros.com](mailto:seema_narang@talbros.com).
- Members who have exercised their right to vote through remote e-voting facility may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again.
- The detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM have been given in the notes to the Notice of 68<sup>th</sup> AGM.

Members who have not registered their e-mail ids with the Company/Depositories are requested to register the same in respect of the shares held by them in electronic form with their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to [rajeev.kr@kfintech.com](mailto:rajeev.kr@kfintech.com) or [seema\\_narang@talbros.com](mailto:seema_narang@talbros.com).

Facility to join the AGM through VC/OAVM is available through NSDL e-voting portal at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). Members are requested to refer to the notes to Notice of 68<sup>th</sup> AGM for detailed procedure for joining the AGM.

Members, who would like to express their views or ask questions during the AGM, may register themselves as a speaker by sending a request from their registered email address to [seema\\_narang@talbros.com](mailto:seema_narang@talbros.com), mentioning their name, DP ID and Client ID/ folio number, e-mail id and mobile number by **Tuesday, 16<sup>th</sup> September, 2025 by 5:00 P.M. (IST)**. Only those Members, who have registered themselves as a speaker, will be allowed to express their views/ask questions during the AGM depending upon availability of time. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers depending on the availability of time at the AGM.

The result of the remote e-voting before and during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared along with Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website [www.talbros.com](http://www.talbros.com) and on website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and website of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) respectively.

In case of any query/grievance regarding e-voting or technical assistance for participating in the AGM via VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on 022- 4886 7000 or send a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) in contact with Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, at designated e-mail IDs: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

**For Talbros Automotive Components Limited**  
 Sd/-  
**(Seema Narang)**  
 Company Secretary

**Place: Faridabad**  
**Date : 30<sup>th</sup> August, 2025**




**Arka Fincap Limited**  
 Registered & Corporate Office: 2504, 2505, 2506, 25<sup>th</sup> Floor, One Lodha Place, Lodha World Towers Senapati Bapat Marg, Lower Panel, Mumbai- 400013  
 CIN: U65993MH2018PLC308329  
 Tel: +91 22 40471000; Fax: +91 22 40471010  
 Website: [www.arkafincap.com/arka-fincap](http://www.arkafincap.com/arka-fincap)  
 Email: [customercare@arkafincap.com](mailto:customercare@arkafincap.com)

**NOTICE - BRANCH SHIFTING**

Notice is hereby given that Arka Fincap Limited proposes to shift its branch office currently located at:  **Ganesh Tower, B-30, B-31, 2<sup>nd</sup> Floor, Akhaliya Vikas Yojana, Akhaliya Circle, Chopasni Road, Jodhpur- 342008, Rajasthan** to the New Address at: **1<sup>st</sup> Floor, Saraswati Nagar, Basni, Jodhpur- 342011, Rajasthan** effective **30<sup>th</sup> November 2025**. For any assistance, please contact at +9122 40471000 or send an email to [grievanceredressal@arkafincap.com](mailto:grievanceredressal@arkafincap.com).

**For Arka Fincap Limited**  
 Sd/-  
**Niki Mehta**  
 Company Secretary and Chief Compliance Officer  
 A **Kirloskar** Group Company  
 The mark "Kirloskar" in the status in line is owned by Kirloskar Proprietary Limited and ARKA Fincap Limited is the permitted user.

**Date: 30<sup>th</sup> August, 2025**  
**Place: Mumbai**



**JCK INFRA PROJECTS LIMITED**  
 CIN: U70200KA1974PLC002524  
 Registered office: No. 309, 1st Floor, Westminster 13, Cunningham Road, Bangalore-560 052.  
 Email: [investors@jckgroup.in](mailto:investors@jckgroup.in) | Website: [www.jckgroup.in](http://www.jckgroup.in)

**NOTICE OF 49<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 49<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Thursday, September 25, 2025 at 12:30 P.M.** through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses mentioned in the AGM Notice, in compliance with General Circular Number 14/2020 dated April 08, 2020, and 17/2020 dated April 13, 2020, followed by General Circular Number 20/2020 dated May 05, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as "MCA Circulars").

The Notice calling the 49<sup>th</sup> AGM and complete Annual Report of the Company is available on website of the Company [www.jckgroup.in/investors](http://www.jckgroup.in/investors). The Company has already sent soft copy of 49<sup>th</sup> Annual Report to all shareholders on 30.08.2025 whose e-mail address is updated with the Company.

The shareholders whose email ids are not yet registered with the Company are requested to register their contact number and email id with the Company's RTA Integrated Management Services Pvt. Ltd., at [giri@integratedindia.in](mailto:giri@integratedindia.in) by providing their name registered as per the records of the Company, address, contact number, email ID, PAN, DPID/Client ID or Folio Number and number of shares held by them.

The shareholders are also requested to demat their shares by contacting respective Depository Participants (DP's).

The Register of members and Share Transfer books are closed from September 15, 2025 to September 25, 2025 (both days inclusive).

In case of any query/grievance(s) connected with registration of email ids with the Company for receiving AGM notice, participation and voting in the general meeting, members may contact the Company at [investors@jckgroup.in](mailto:investors@jckgroup.in) or [giri@integratedindia.in](mailto:giri@integratedindia.in).

**By order of the Board of Directors**  
**For JCK Infra Projects Limited**  
 Sd/-  
**Krishan Kapur**  
 Managing Director  
 DIN: 05183136

**Place: Bengaluru**  
**Date: 30.08.2025**



**MAAN ALUMINIUM LIMITED**  
 Regd. Off: 4/5, 1st Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110002  
 CIN: L30007DL2003PL124485, Ph: 40081800,  
 Email: [info@maanaluminium.in](mailto:info@maanaluminium.in) Website: [www.maanaluminium.com](http://www.maanaluminium.com)

**NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION REGARDING ELECTRONIC VOTING**

Notice is hereby given that the 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Singer India Limited ("Company") is scheduled to be held on **Tuesday, September 23, 2025 at 12:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular number 9/2024 dated 19 September, 2024 read with circulars dated, 8 April, 2020, 13 April, 2020, 5 May, 2020, 13 January, 2021, 14 December, 2021, 28 December, 2022, 25 September, 2023, 19 September, 2024 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") read along with Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and SEBI HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/24 dated January 05, 2023, SEBI/HO/CFD/CFDPOD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 and other relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "SEBI Circulars"), which permitted to hold AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at the common venue. Detailed instructions for joining the AGM through VC/ OAVM is given in the Notice of the AGM.

In compliance with the provisions of the Act, SEBI Listing Regulations, MCA Circulars & SEBI Circulars, the Notice of 22<sup>nd</sup> AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 have been sent on 30<sup>th</sup> August, 2025, through electronic mode, to those Members of the Company whose email IDs are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent or Depository Participant(s) ("Depository"). Pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company's Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participant(s) will send individual letters to those members whose email addresses are not registered, informing them about the availability of the Annual Report on the Company's website. The aforesaid Notice of 22<sup>nd</sup> AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 are also available and can be downloaded from the Company's website at [www.maanaluminium.com](http://www.maanaluminium.com), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, and on the website of **MUFG Intime India Private Limited** (Formerly Link Intime India Private Limited) at the website address <https://instanmeet.linkintime.co.in>.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility prior to AGM and facility of e-voting system during the AGM to all the eligible Members of the Company to cast their votes on a resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote e-voting and e-voting system (collectively referred as "electronic voting"). The Company has engaged the services of **MUFG Intime India Private Limited** (Formerly Link Intime India Private Limited) as the agency to provide the electronic voting facility.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. A Abhinav & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer, to scrutinize the voting process electronically or otherwise for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner. The results of the electronic voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM along with Scrutinizer's Report will be declared within the permissible time under applicable law. The results and Scrutinizer's Report will also be displayed on the website of the Company at [www.maanaluminium.com](http://www.maanaluminium.com), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, and on the website of **MUFG Intime India Private Limited** (Formerly Link Intime India Private Limited) at the website address <https://instanmeet.linkintime.co.in>.


The details as required pursuant to the Act and Rules are as under:

- The remote e-voting shall commence on 20<sup>th</sup> September, 2025 (9:00 A.M.) and will end on 22<sup>nd</sup> September, 2025 (5:00 P.M.). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 16<sup>th</sup> September 2025 shall be entitled to avail the facility of electronic voting. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, 16<sup>th</sup> September, 2025. Any person who has acquired shares and becomes members of the Company after dispatch of Notice of AGM and holds share(s) as on the cut-off date, can also cast vote through electronic voting. The detailed procedure for obtaining login details is provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website [www.maanaluminium.com](http://www.maanaluminium.com).
- Those Members who are present at the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their votes on the resolutions via remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- Members who have not registered their email ID may get the same registered/updated with Company / RTA or Depository to cast their vote (s) through remote e-voting before the AGM or through e-voting during the AGM. The manner of the registering email addresses of those Members whose email addresses are not registered with Company/Depository is provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website [www.maanaluminium.com](http://www.maanaluminium.com).

In case Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode facing any technical issue in login may request INSTAVOTe helpdesk by sending a request at [erotic@in.mpmis.mufg.com](mailto:erotic@in.mpmis.mufg.com) or contact on - Tel: 022 - 4918 6000.

**For Maan Aluminium**  
 Sd/-  
**Sandeep**  
 Company Secretary

**Place: New Delhi**  
**Date: 30.08.2025**



**CENLUB INDUSTRIES LIMITED**  
 CIN No: L67120HR1992PLC035087  
 Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana  
 Phone No: 08826794470, 71 Website: [www.cenlub.in](http://www.cenlub.in) E-mail: [cenlub@cenlub.in](mailto:cenlub@cenlub.in)

**NOTICE OF THE 33<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 33<sup>rd</sup> (Thirty-Third ) Annual General Meeting (AGM) of the members of Cenlub Industries Limited will be held on Friday, 26<sup>th</sup> September, 2025 at 10:30 A.M. at Aggarwal Sewa Sadan, D-48, Sctor-11, Faridabad-121006, (Haryana), to transact the business as mentioned in the Notice of AGM.

The Notice of 33<sup>rd</sup> AGM and Annual Report has been sent in electronic mode to members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other Members at their registered address in the permitted mode.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide their members, the facility to cast their vote electronically on the resolutions set forth in the Notice of AGM. Mrs. Apoorva Singh, Practicing Company Secretary is appointed to scrutinize the remote e-voting and ballot voting process in a fair and transparent manner.

The details as required under the aforesaid provisions are given hereunder:

- Date and time of commencement of Remote E-voting: Tuesday, 23 September 2025 (09:00 A.M.)
- Date and time of end of Remote E-voting: Thursday, 25 September 2025 (05:00 P.M.)
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Friday, 19 September 2025, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in AGM.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of AGM may obtain the Login ID and password by following the procedure as mentioned in the Notice of the AGM or sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com), [investors@cenlub.in](mailto:investors@cenlub.in), [beetal@beetalfinancial.com](mailto:beetal@beetalfinancial.com).
- Voting through Remote E-voting shall not be allowed beyond 05.00 P.M. on Thursday , 25 September 2025. The E-Voting module shall be disabled by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for voting thereafter.
- The facility of voting through ballot paper shall be made available at the venue of AGM.
- The Notice of 33<sup>rd</sup> AGM and Annual Report is available on the Company's website at

**एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड**  
(ए शेड्यूल्ड कर्मास्थित बैंक)  
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, भूखेसरा हाईवे, अक्करा रोड, जम्पुर, 302001 (CIN:L36691RJ1996PLC0113881)

**परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कक्षा सूचना)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कर्मास्थित बैंक) का प्राथमिक अधिकारी होते हुए "विनीय आस्तियों का प्रतिपुष्टिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिपुष्टि हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 के नियम 54)]" और प्रतिपुष्टिकरण (प्रवर्तन) नियम 13 (1) (2) का समर्पित नियमों के निमित्त (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का अनुयोग में मांग सूचना दिनांक 16 मई 2024 को निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए ऋणी सैतुस पयस इवोर चरिए पोपारवरा पयस कुमारा (ऋणी), अश्विक शर्मा (सह-ऋणी), श्रीमती मुर्ती देवी (सह-ऋणी), पयस कुमारा (सह-ऋणी) (उत्तरासंख्या: L9001060726467311) से नोटिस में वर्णित समूचे 3112788/- (रु. इकतीस लाख बारह हजार सात सौ अठ्ठसी मात्र) की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/ऋणकर्ता के वह राशि लौटा देने में विफल होने पर ऋणी/ऋणकर्ता को तथा समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा समर्पित प्रतिपुष्टिप्रति प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुयोग में एलिसम नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 25 माघ अमृत वर्ष 2025 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सह-ऋणी/ऋणकर्ता को विशिष्टधारा और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई भी कार्य 3112788/- (रु. इकतीस लाख बारह हजार सात सौ अठ्ठसी मात्र) की राशि लौटाने तक 13 मई 2024 तक तथा आगे का व्यवहार एवं कृत भुगतान होने तक की राशि एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कर्मास्थित बैंक) के प्रेषण के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के साथ समर्पित नियम 8 (6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिपुष्टि आस्तियों को मोचन के लिये उपलब्ध समय अर्थात् इस सूचना से 30 दिवस के समयत्व में है।

**स्थायर सम्पत्ति का विवरण**

सम्पत्ति के सभी अधिधन अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्स्ड संपत्ति बेवॉरिस में 52/23, गली नं. 18, आनंद प्रभात, ध्यान सिंह नगर दिल्ली, क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर जो कि श्रीमती मुर्ती देवी की संपत्ति में है।

दिनांक: 25 अगस्त 2025  
स्थान: दिल्ली

**प्राथमिक अधिकारी**  
एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड

**इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
पंजीकृत कार्यालय: सीता भिन्न, दिल्ली-न्यू रोड, नई दिल्ली -110076 (भारत)  
कोरपोरेट ब्रानच नं. L242320L1988PLC030958  
फोन: 91-11-26252588, 26252591, फैक्स: 91-11-26823629  
ईमेल: [inc@shares@apollohospitals.com](mailto:inc@shares@apollohospitals.com), वेबसाइट: <https://www.apollohospitals.com/delhi>

**शेयरधारकों को सूचना-37वीं वार्षिक आम बैठक**

इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि:-

- कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को सुबह 11.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एससीए) के सामान्य परिचय संख्या 20/2020, 10/2022, 9/2023 और 9/2024 दिनांक 5 मई, 2020, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर, 2023 और 19 सितंबर, 2024 के अनुसार होगी, जिसे मार्तीय प्रतियुति और विनिमय बोर्ड (सीबी) के परिपत्रों दिनांक 12 मई, 2020 और 3 अक्टूबर, 2024 (उत्तर परिपत्रों) के साथ पढ़ा जाएगा, ताकि व्यवसाय का संचालन किया जा सके, जैसा कि एजीएम के नोटिस में निर्धारित किया गया है, जिसे एजीएम बुलाते के लिए भेजा जा रहा है।
- वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्हें ईमेल पते उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, कंपनी की वेबसाइट <https://www.apollohospitals.com/delhi>, और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी /ओवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकते हैं।
- यदि 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेबलिंग प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।
- कंपनी से सभी संचार (वार्षिक रिपोर्ट सहित) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए:
  - क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी मेसर्स एयूएफजी इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को [delhi@in.mps.mufg.com](mailto:delhi@in.mps.mufg.com) पर फॉलोअप नंबर, शेयरधारकों को नाम, शेयर प्रमाणपत्र की रकम की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की रस-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की रस-सत्यापित प्रति) के विवरण के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करें।
  - ख) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करें।
- वार्षिक आम बैठक की सूचना में शामिल प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग पोर्टल पर की जाएगी। ई-वोटिंग पोर्टल का विवरण और ई-वोटिंग की प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्दिष्ट की जाएगी। निम्न सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपना ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित ई-वोटिंग पोर्टल और प्रक्रिया का विवरण प्राप्त कर सकते हैं और ई-वोटिंग के लिए क्रेडेंशियल प्राप्त करने के बाद ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट कर सकते हैं। सभी विवरणों के सत्यापन के बाद सदस्यों को क्रेडेंशियल प्रदान किए जाएंगे।
- 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार भेजी जा रही है।

**इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए**

**भिया रंजन**

दिनांक: 30.08.2025

**एजीएम - कॉर्पोरेट मामले एवं कानूनी स्थान: नई दिल्ली**

**एजीएम - कॉर्पोरेट मामले एवं कानूनी स्थान: नई दिल्ली**

**एजीएम - कॉर्पोरेट मामले एवं कानूनी स्थान: नई दिल्ली**

**INDIAN SUCROSE LIMITED**  
CIN: L15424PB1990PLC010903  
Registered Office: G. T. Road, Mukherian Distt Hoshiarpur, Punjab, India, 144211  
Website: [www.muksug.in](http://www.muksug.in), E-mail: [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com)  
Phone: +91-9115110651/52

**INFORMATION REGARDING 34<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)**

The 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of Indian Sucrose Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 30th September, 2025 at 10:30 AM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("The Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January 2021 and Circular No. 2/2022 dated 5<sup>th</sup> May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022, September 25, 2023 and Circular No. 09/2024 dated September 19 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/CIR/2024 dated 05<sup>th</sup> January, 2023, 7<sup>th</sup> October, 2023 and Circular dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency to provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting during AGM.

In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 34<sup>th</sup> AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent only through electronic mode to those members, whose e-mail address is registered/available with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will be available on the website of the Company at [www.muksug.in](http://www.muksug.in), website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address with the Company will be provided in the Notice of AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company / Depository Participant(s) are requested to register their e-mail address as per Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25:

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**Physical Holding**

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd through an e-mail at [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com) or [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) providing FOL No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25.

**Demat Holding**

please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com) or [admin@mcsgregistrars.com](mailto:admin@mcsgregistrars.com)

**HDFC BANK**  
**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**  
शाखा का पता: हिन्दुस्तान टाईम्स हाउस, द्वितीय तल, 25-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 फोन: 0522-4272777, 6873726, फैक्स: 0522-2205106  
CIN: L65920MH1994PLC000618  
वेबसाइट: [www.hdfcbank.com](http://www.hdfcbank.com)

**मांग सूचना**

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिपुष्टिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिपुष्टि हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिपुष्टि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अन्तर्गत

जैसा कि, (माननीय एनसीएलटी-मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित सम्मेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विवाद हो गया है) (एचडीएफसी) वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिपुष्टिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिपुष्टि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राथमिक अधिकारी के रूप में तथा प्रतिपुष्टि हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गए विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना / सूचनाओं में वर्णित राशि को वापस लौटाने के लिये कहा था। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋणी / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी द्वारा निम्नादिष्ट लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कोलम सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं / अथवा उपासी की तिथि तक उक्त मांग सूचना में वर्णित लागू हो रहे योग्य दरो पर आम के व्याज के साथ वाहां नीचे दशगुनी गयी राशि को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर एचडीएफसी को भुगतान कर दें। ऋण की देय दुरुगुमतिन के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी द्वारा एचडीएफसी के पास निम्नादिष्टित प्रतिपुष्टि परिसम्पत्तियों को बंधक रखा गया है:

ऋणी / उधारकर्ता (ओं) / कानूनन वारिस (यों) का ध्यान सरकारी एक्ट की धारा 13 की उप-धारा(8) की ओर आकर्षित किया जाता है कि तब समय सीमा में प्रामाण्य परिसम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र.सं.	उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया धनराशि (रु०)*	मांग सूचना की तिथि	प्रतिपुष्टि परिसम्पत्ति / अवल सम्पत्ति का विवरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1	श्रीमती ललिता कुमारी, सह-ऋणी एवं पत्नी श्री देवदत्त कुमार गौतम (अब मृतक) एवं अन्य जाने अज्ञाने कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि श्री देवदत्त कुमार गौतम (अब मृतक) म०न०-05/1669, प्लॉट बॉय पास रोड, निकट अम्बेडकर स्टेशन-1, मामल कलानगर-अलीगढ़	26,48,618/- दिनांक 31.07.2025 तक	26.08.2025	प्लाट पर बकाना आवासीय भवन परियोजना, पुरान खसरा नं० 115, मया खसरा नं० 115/1, मीजा आलापुर गड़िया परगना तहसील कोल-लिलाल अलीपुर चौहदरी: पू: मून् प्लाट पर अब मकान, प: सड़क, उ: राजकुमारी प्लाट पर अब मकान, द: उदयवर्मा सिंह का प्लाट, क्षेत्रफल: 83.61 वर्ग मी०
2	श्रीमती राजकुमारी, सह-ऋणी एवं माता श्री भारती प्रशासन (अब मृतक), श्री भारती सोमूदर, सह-ऋणी एवं भाई श्री भारती प्रशासन (अब मृतक), श्री अमिनपुर, भाई श्री भारती प्रशासन (अब मृतक), श्री भारती प्रशासन (कन्या) द्वारा प्रप्राइटर एवं अन्य जाने अज्ञाने कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि श्री भारती प्रशासन (अब मृतक) 677 / 10 नाजिमपुरा बुलन्दशहर	25,29,051/- दिनांक 31.07.2025 तक	26.08.2025	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण माल प्लाट नं० की-64, परगना-बहरान, गंगानगर आवासीय योजना, बुलन्दशहर, चौहदरी: पू: कालोनी की सड़क उसके बाएं पार्श्व, प: प्लाट नं० की-80 एवं 81, उ: प्लाट नं० 65, द: प्लाट नं० 63, क्षेत्रफल: 200 वर्ग मी०

\* भुगतान और / या वसूली की तिथि तक लागू दर से ब्याज, आकारिक व्यय, लागत सहित। यदि, उक्त ऋणदाता एचडीएफसी को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग्य नियमों के अंतर्गत एचडीएफसी लागू एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोड़ियम पर ऊपर प्रतिपुष्टि परिसम्पत्तियों / अवल सम्पत्तियों के प्रति आम की कार्यवाई करेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत एचडीएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों की, पट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिपुष्टि परिसम्पत्तियों / अवल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद एवं / अथवा दंड हो सकता है।

दिनांक: 31.08.2025  
स्थान: अलीगढ़ / बुलन्दशहर